

प्रेस नोट दिनांक-04.10.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 373/2021 धारा 379 भादवि0 के वाँछित अभियुक्त शिवा श्रीवास पुत्र रामदुलारे निवासी नगर पालिका के सामने पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी की 01 अदद बैट्री एमरोन के साथ गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनांक-03.10.2021 को कुनाल प्रताप सिंह पुत्र मोहन सिंह निवासी एसडीएम कॉलोनी थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी कि शिवा श्रीवास पुत्र रामदुलारे निवासी नगर पालिका के सामने पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट द्वारा दिनांक-26.09.2021 को कामदगिरि ट्रैक्टर एजेन्सी से 03 अदद बैट्री चोरी कर ली गयी है। इस सम्बन्ध में कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 373/2021 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी हेतु उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गयी। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शिवा श्रीवास उपरोक्त को चोरी की 01 अदद बैट्री एमरोन के साथ गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।

बरामदगी:-

01 अदद बैट्री एमरोन

अभियुक्त का विवरण:-

शिवा श्रीवास पुत्र रामदुलारे निवासी नगर पालिका के सामने पुरानी बाजार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण सिंह कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी गोलू भार्गव

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 02 अभियुक्तों के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट तथा 13 अभियुक्तों के विरूद्ध 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक थाना भरतकूप श्री दुर्गेश प्रसाद गुप्ता द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त (1) पवन श्रीवास्तव (2) पंकज श्रीवास्तव पुत्रगण महेश प्रसाद निवासीगण भैसोंधा थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 03 यू0पी0 गुण्डा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा जनता में भय एवं आतंक व्याप्त कर अपराध कारित करने वाले अभियुक्त (1) शिवसागर उर्फ राजा केवट पुत्र कामता प्रसाद (2) राजकरन पुत्र रामऔतार (3) पवन पुत्र राजकरन (4) अनिल पुत्र रामदीन (5) धर्मेन्द्र पुत्र कामता (6) बुद्धराज (7) कामता पुत्रगण भोली (8) संजय पुत्र मइयादीन (9) सोनू पुत्र रामचन्द्र (10) राजू उर्फ राजकुमार केवट पुत्र कामता (11) तिवारी उर्फ सुखलाल (12) फदाली उर्फ अनिरूद्ध पुत्रगण लालाराम निवासीगण भदेवरा (13) बेनी प्रसाद पुत्र बिन्दा केवट निवासी चनहट खाना राजापुर जनपद चित्रकूट के विरूद्ध 110जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम नादी से अभियुक्त भानूप्रताप सिंह पुत्र विश्वलेशर सिंह निवासी तौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 16 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 144/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगी:-

16 अदद क्वार्टर देशी शराब

बरामदगी करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजोल नागर थाना पहाड़ी
2. रि0 आरक्षी आशीष कुमार

(4). आज दिनांक-04.10.2021 को माननीय उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के प्रस्तावित जनपद चित्रकूट भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल द्वारा सीआईसी कर्वी स्थित कार्यक्रम स्थल, हैलीपेड का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था जायजा लिया। महोदय द्वारा डियूटी में लगे पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस बल के साथ कर्वी शहर में बस स्टैण्ड, ट्राफिक चौराहा में भ्रमण कर डियूटी में लगे पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी श्री राजीव कुमार सिंह, पीआरओ श्री जयशंकर सिंह, एवं अन्य अधि0/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(5). आज दिनांक-04.10.2021 को माननीय उपमुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के प्रस्तावित जनपद चित्रकूट भ्रमण कार्यक्रम के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में श्री निषाद खान प्रभारी ए एस चेक टीम बांदा तथा उप निरीक्षक शिवसागर तिवारी एलआईयू चित्रकूट के नेतृत्व में संयुक्त टीम द्वारा हैलीपेड, कार्यक्रम स्थल एवं स्विस कॉटेज चेकिंग कर संदिग्ध वस्तुओं की चेकिंग की गयी।

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री धवल जायसवाल के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 86/2020 धारा 379/411/413 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त शिवाकान्त लोध उर्फ पण्डा पुत्र राजकरन निवासी देवी जी का पुरवा ओरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह थाना पहाड़ी
2. आरक्षी विकेश कुमार मौर्य